



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931
No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2010

सं. 35 (आर.ई. 2010)/2009-2014

विषय :-सिओन ग-23 और ग-2046 में संशोधन/शुद्धियाँ ।

फा. सं. 01/81/162/259/ए एम 08/डी ई एस-2.-विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियाँ करते हैं ।

2. समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2009-2014 में यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों (सिओन) के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" और "ख" में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ की गई हैं।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार

अनुलग्नक “क”

**इंजीनियरिंग उत्पाद
संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्तन**

क्रम सं. ग-23 पर सिओन

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ग-23	एल्युमीनियम के बर्तन सीलिकॉन और या पी.टी.एफ.ई. बेस (नॉन स्टिक) के रूप में इंटीरियर पी.टी.एफ.ई. कोटिंग और एक्सटीरियर कोटिंग मैटीरियल सहित, हैण्डल सहित/रहित (पी.टी.एफ.ई. नान स्टिक कोटिंग की 40 माइक्रॉन मोटाई से कम हो)	1 किग्रा.	1. एल्युमीनियम स्क्रैप या एल्युमीनियम इन्गोट्स 2. पी.टी.एफ.ई. नॉन-स्टिक कोटिंग मैटीरियल 3. हाई-टैम्प रेजिस्टैन्स कोटिंग मैटीरियल सिलिकॉन और/या पी.टी.एफ.ई. बेस के रूप में 4. बैकलाइट मोल्डिंग पाउडर	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम का 1.15 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम का 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश इन्टरनल कोटिंग क्षेत्र का 0.128 ली/वर्ग मी. एक्सटरनल कोटिंग क्षेत्र का 0.128 ली/वर्ग मी. निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश

टिप्पणी :— 1. मद सं. 4 की अनुमति तभी दी जाएगी यदि बैकलाइट हैण्डल के साथ निर्यात किया जाता है

2. मद सं. 3 की अनुमति तभी दी जाएगी यदि निर्यात उत्पाद पेंट किया गया है।

अनुलग्नक “ख”

**इंजीनियरिंग उत्पाद
संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्तन**

क्रम सं. ग-2046 पर सिओन

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ग-2046	एल्युमीनियम के नॉन स्टिक बर्तन सीलिकॉन और या पी.टी.एफ.ई. बेस (नॉन स्टिक) के रूप में 40 माइक्रान और एक्सटीरियर कोटिंग मैटीरियल की इन्टीरियर थ्री लेयर पी.टी.एफ.ई. कोटिंग हैण्डल सहित/ रहित	1 किग्रा.	1. एल्युमीनियम स्क्रैप या एल्युमीनियम इन्गोट्स या एल्युमीनियम सर्कल्स या अनकोटेड एल्युमीनियम के बर्तन 2. पी.टी.एफ.ई. नॉन-स्टिक कोटिंग मैटीरियल 3. सिलिकॉन और/या पी.टी.एफ.ई. बेस के रूप में हाई टैम्परेचर रेजिस्टैन्स कोटिंग मैटीरियल 4. बैकलाइट मोल्डिंग पाउडर 5. स्टेनलैस स्टील हैण्डल्स 6. एल्युमीनियम रिबेट्स	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम का 1.15 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम का 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम का 1.07 किग्रा./किग्रा. अंश निवल से निवल आधार पर इन्टरनल कोटिंग क्षेत्र की 0.403 ली/वर्ग मी. एक्सटरनल कोटिंग क्षेत्र की 0.128 ली/वर्ग मी. निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम का 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निवल से निवल निवल से निवल

टिप्पणी :— 1. मद सं. 3 अनुमत होगी यदि निर्यात उत्पाद पेंट किया गया है।

2. मद सं. 4 अनुमत होगी यदि बैकलाइट हैण्डल के साथ निर्यात किया जाता है।

3. मद सं. 5 अनुमत होगी यदि स्टेनलैस स्टील हैण्डल के साथ निर्यात किया जाता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st January, 2010

No. 35 (RE : 2010)/2009-2014

Subject : Amendments/corrections in SION C-23 and C-2046.

F. No. 01/81/162/259/AM 08/DES-II.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-09 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/corrections in the Handbook of Procedures (Vol. 2), 2009-2014 as amended from time to time.

2. In the statement of Standard Input Output Norms (SION) as contained in the Handbook of Procedures (Vol. 2), 2009-2014 as amended from time to time, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in ANNEXURE "A" and ANNEXURE "B" to this Public Notice are made.

This issues in public interest.

R.S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE "A"

ENGINEERING PRODUCTS
AMENDMENTS/CORRECTIONS/MODIFICATION

SION at Sl. No. C-23

C-23	Aluminium Utensils with interior PTFE Coating and Exterior Coating material as Silicon and or PTFE base (Non Stick) with/without handle (less than 40 micron thickness of PTFE Non-Stick Coating)	1 kg.	1. Aluminium Scrap	1.15 kgs./kg.
			OR	Content of Aluminium in the export product
			Aluminium ingots	1.10 kgs./kg.
				Content of Aluminium in the export product
			2. PTFE Non-Stick Coating material	0.128 Ltr./sq. mtr. of internal coating area
			3. High Temp. Resistance Coating material as Silicon and/or PTFE Base	0.128 Ltr./sq. mtr. of external coating area
			4. Bakelite Moulding Powder	1.05 kgs./kg. content in the export product

- Note :**
1. Item No. 4 to be allowed only if exported with Bakelite Handle.
 2. Item No. 3 will be allowed only if export product is painted.

ANNEXURE "B"

ENGINEERING PRODUCTS
AMENDMENTS/CORRECTIONS/MODIFICATION

SION at Sl. No. C-2046

1	2	3	4	5
C-2046	Aluminium Non-stick Utensils with interior Three Layer PTFE Coating of 40 micron and Exterior Coating material as Silicon and or PTFE base (Non Stick) with/without handle	1 kg.	1. Aluminium Scrap	1.15 kgs./kg.
			OR	Content of Aluminium in the export product
			Aluminium ingots	1.10 kgs./kg.
			OR	Content of Aluminium in the export product
			Aluminium Circles	1.07 kgs./kg.

4	5
OR	Content of Aluminium
Uncoated Aluminium	in the export product
Utensils	Net to net basis
2. PTFE Non-Stick	0.403 Ltr./sq. mtr. of
Coating material	internal coating area
3. High Temp.	0.128 Ltr./sq. mtr. of
Resistance Coating	external coating area
material as Silicon	
and/or PTFE Base	
4. Bakelite Moulding	1.05 kgs./kg. content
Powder	in the export product
5. Stainless Steel	Net to net
Handles	
6. Aluminium Rivets	Net to net

- Note :**
1. Item No. 3 will be allowed only if export product is painted.
 2. Item No. 4 will be allowed if exported with Bakelite Handle.
 3. Item No. 5 will be allowed only if exported with Stainless Steel Handles.